

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोंडा दिनांक 19.09.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोंडा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को0 देहात पुलिस ने 02 व थाना को0 मनकापुर पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 19.09.2022

मोटरसाईकिल चोर गिरफ्तार, चोरी हुई मोटरसाईकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वाहन चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर अभियुक्त मोहित गुप्ता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुरायी गयी मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 08.09.2022 की रात्रि जफरापुर मोड़ के पास स्थित एक मकान से मोटरसाइकिल चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मोहित गुप्ता पुत्र रामबालक गुप्ता नि० सरगवन पुरवा मौजा बेलसर थाना तरबगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं०-203/22, धारा 379,411 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद मोटरसाईकिला

गिरफ्तारकर्ता टीम:-

उ०नि० अवधेश यादव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 19.09.2022

नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त- सर्वेश कुमार गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना खरगूपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सर्वेश कुमार गोस्वामी पुत्र रामानंद गोस्वामी नि0 दुबाई हाता थाना खरगूपुर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 252/2022 धारा 363,366,376 आईपीसी 3/4 पाक्सो एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोंडा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 अखिलेश यादव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 19.09.2022

चोरी की घटना का हुआ खुलासा, चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोर गिरफ्तार, 01 तमंचा मय कारतूस, 02 अदद नाजायज चाकू व चोरी करने के उपकरण बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चोरो/लूटेरो/नकबजनों/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने एवं चोरी की घटनाओं के शीघ्र अनावरण के लिए समस्त प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 18/19.09.2022 की रात्रि को थाना को० देहात पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 अदद तमंचा मय कारतूस, 02 अदद नाजायज चाकू व चोरी करने के उपकरण बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 04.09.2022 की रात्रि थाना को० देहात क्षेत्र के वीरसिंहपुर गांव के पास खेत से एक विद्युत मोटर चोरी किया था। पकड़े गए अभियुक्त शातिर अपराधी हैं। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को० देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

01. राजेश उर्फ चुन्नू उर्फ आजम पुत्र अली अहमद नि० ग्राम पुरे तिवारी थाना को० देहात जनपद गोंडा।
02. टेनू उर्फ छोटेलाल पुत्र चंद्रिका नि० ग्राम जमुनियाबाग खोरहंसा थाना को० देहात जनपद गोंडा।
03. इंसाफ अली उर्फ कालिया पुत्र अहमद नि० पुरे तिवारी थाना को० देहात जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं०-434/22, धारा 401,379 भादवि थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-435/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०-436/22, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
04. मु०अ०सं०-437/22, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग:-

01. मु०अ०सं०-432/22, धारा 379 भादवि थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी:-

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 02 अदद नाजायज चाकू।
03. चोरी करने के उपकरण।

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

01. उ०नि० अर्जुन सिंह मय टीम।
02. उ०नि